



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20, 1982/फाल्गुन 1, 1903
No. 59] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 1982/PHALGUNA 1, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय
[(कृषि और सहकारिता विभाग)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1982

सां०कां० 75(अ).—केन्द्रीय सरकार नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 7 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारियल विकास बोर्ड (मुख्य नारियल विकास अधिकारी और सचिव) भर्ती नियम, 1981 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नारियल-विकास बोर्ड (मुख्य नारियल विकास अधिकारी और सचिव) (संशोधन) भर्ती नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नारियल विकास बोर्ड (मुख्य नारियल विकास अधिकारी और सचिव) भर्ती नियम, 1981 की अनुसूची में, मुख्य नारियल विकास अधिकारी के पद में संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ 8 में,

(क) "आवश्यक" शीर्षक के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम०एम्०सी० (उच्चान कृषि) या एम०एम्०सी० (कृषि) या नारियल और अन्य

पादप फसलों में विशेषज्ञता सहित एम०एम्०सी० (वनस्पति विज्ञान) या समतुल्य।

(2) नारियल की खेती, उसके विपणन और प्रसंस्करण के सभी पहलुओं का पूर्ण ज्ञान जिससे कि वह उपयुक्त विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन "पर बोर्ड को" सलाह दे सकता है।

(3) नारियल के प्रति विशेष निर्देश से कृषि अनुसंधान/विकास/विस्तार/प्रसंस्करण/विपणन कार्य का लगभग दस वर्ष का अनुभव।"

(ख) "बांछनीय" शीर्षक के नीचे, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"टिप्पण : 1. अर्हताएं, अन्यथा सुसहित अस्थितियों की दशा में, चयन समिति के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) चयन समिति के विवेकानुसार अनुमति प्राप्त जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अस्थितियों के मामले में उन दशा में शिथिल की जा सकती है (है) जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर चयन समिति की यह राय है कि इनके लिये आरक्षित शिक्षितों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अस्थितियों पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।"

[सां०सं० 12-13/79/सी०ए०-1]

एस० पी० सिंह, उप-सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1982.

G.S.R. 75 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19, read with sub-section (5) of section 7 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Central Government hereby makes rules to amend the Coconut Development Board (Chief Coconut Development Officer and Secretary) Recruitment Rules, 1981 namely:—

1. (a) These rules may be called the Coconut Development Board (Chief Coconut Development Officer and Secretary) (Amendment) Recruitment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Coconut Development Board (Chief Coconut Development Officer and Secretary) Recruitment Rules, 1981, against serial number 1 relating to the post of Chief Coconut Development Officer, in column 8—

(a) under the heading "Essential", for the entries, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"(i) M.Sc. (Horticulture) or M.Sc. (Agriculture) or M.Sc. (Botany) with specialisation in coconut and

other plantation crops from a recognised university or equivalent.

(ii) Thorough knowledge of all aspects of coconut cultivation, marketing and processing so as to be able to advise the Board on the implementation of suitable development programmes.

(iii) About ten years' experience in agriculture research/development/extension/processing/marketing work with particular reference to coconut."

(b) under the heading "Desirable", the following notes at the end shall be inserted, namely:—

Note 1. Qualifications relaxable at the discretion of Selection Committee in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Selection Committee in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Selection Committee is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy (ies) reserved for them;"

[File No. 12-13/79-CA.1]

S. P. SINGH, Dy. Secy.